

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा- नवीं

Assignment नवंबर-2018-19

प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

राह पर खड़ा आम का वह पेड़ सदा से ठूँठ नहीं था । दिन थे जब वह हरा-भरा था और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर करता था पर मैंने उसे सदा ठूँठ ही देखा है। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे पत्रहीन तथा शाखाहीन वह पेड़ पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत-सा लगता था ।दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है । प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया ज़मीन पर डालता जैसे रात की उजियारी चाँदनी में ।जब से होश संभाला है, जब से आँख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक जमाना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शरमाते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। आज वही नीरव है । उसके अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद है - उसके अंदर का स्नेहरस सूख जाने से संज्ञा का लोप हो जाना। संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है।

1. आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था ?
2. शाखाहीन, रसहीन, शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है ?
3. आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शरमाने का क्या कारण था?
4. आम के अभागेपन में कौन - सा सुखद अपवाद था ?
5. 'प्रचंड' तथा 'अविरल' शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएँ ।

(वाक्य गद्यांश में से नहीं होने चाहिए ।)

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (क) अग्निपथ कविता हमें क्या सन्देश देती है ?
- (ख) कवि ने अग्निपथ किसका प्रतीक माना है ?
- (ग) हमें कीचड़ को सम्मान क्यों देना चाहिए ?
- (घ) लेखक ने नास्तिक लोगों को अच्छा क्यों कहा है ?
- (ङ) चालाक व्यक्ति धर्म के नाम पर क्या करते हैं ?

प्रश्न-3 निम्नलिखित शब्दों के वर्ण - विच्छेद करें ।

वार्षिक , क्षितिज , लंकेश , विद्रोही

प्रश्न-4 संधि कीजिए ।

यथा + इष्ट , दया + उर्मि , मुनि + ईश्वर

प्रश्न-5 संधि - विच्छेद कीजिए ।

रजनीश , जलोर्मि , चंद्रोदय

प्रश्न-6 परीक्षा में नक़ल करते हुए पकड़े जाने पर छोटे भाई को समझाते हुए पत्र लिखें ।

प्रश्न-7 'इंटरनेट की दुनिया' विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए ।

प्रश्न-8 दिए गए चित्र का वर्णन 25-30 शब्दों में करें ।



